

# कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी।

निविदा प्रपत्र - 2020-21

टैक्नीकल विड (निविदा फार्म)

कार्य का नाम- सर्वो कन्ट्रोल वोल्टेल स्टेप्लाइजर

## आवश्यक शर्ते

- 1- निविदादाता को निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि अनिर्वाय रूप से जमा करनी होगी।
- 2- निविदादाता को फर्म का आयकर रिटर्न/जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3- निविदादाता फर्म का किसी राजकीय संस्थान में सामग्री आपूर्ति किये जाने का अनुभाव।
- 4- आपूर्तिकर्ता फर्म को ब्लेक लिस्ट न होने, संलग्नक प्रपत्रों के जाली न होना एवं फर्म ने यहां से न्यूनतम दरें और कहीं कोट नहीं की हैं का रू. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- 5- आपूर्तिकर्ता फर्म को मूलनिर्माता/ अधिकृत विक्रेता/ डीलरशिप होने का साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6- जो फर्म निविदा से सम्बन्धित नहीं होगी या टैक्नीकल बिड की शर्तों को पूरा नहीं करेगी उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7- प्रधानाचार्य को निविदादायक की निविदा बिना कारण बताये समस्त एवं आशिक रूप से निरस्त करने तथा कार्य की मात्रा में आवश्यकतानुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा निविदादायक द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती या वाद मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।
- 8- स्वीकृत निविदादायक को रू. 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध भरना होगा, जो निविदा का ही भाग समझा जायेगा।
- 9- निविदादाता फर्म की स्वीकृत दरों से नियमानुसार आयकर/ जी.एस.टी./ अन्य टैक्स की कटौती की जायेगी। इसके साथ ही यदि सरकार (केन्द्र/राज्य) द्वारा वर्तमान में प्रचलित टैक्स के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के टैक्स में बढ़ोत्तरी या अन्य कोई टैक्स लागू किया जाता है तो उसे स्वयं फर्म/निविदादाता को वहन करना होगा।

10- निविदा की स्वीकृत दरें दिनांक- 31.03.2021 अथवा अगले वित्तीय वर्ष की निविदा स्वीकृत होने तक के लिये मान्य होगी।

11- निविदा फर्म को वांछित तकनीकी विशिष्टाओं की पूर्ण कराना होगा, जो इस निविदा का भाव माना जायेगा।

12- निविदादाता फर्म को आपूर्ति आदेश मिलने के 48 घण्टे के अन्दर आपूर्ति एवं स्थापित करना अनिवार्य होगा।

13- निविदादाता फर्म/आपूर्तिकर्ता फर्म का स्थानीय सर्विस सेन्टर होना अनिवार्य होगा। जिसमें किसी भी प्रकार की सर्विस सम्बन्धित शिकायत होने पर उसका निस्तारण उसी दिन किया जा सके।

(साधना कौशिक)

प्रधानाचार्य।

## घोषणा - पत्र

कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना सं.-.....दिनांक-..... मैं वाणित नियम व शर्तों के अन्तर्गत में श्री.....निवास.....  
निविदा का नाम-..... का कार्य करने हेतु दिनांक-  
31.03.2021 या अलगे वित्तीय वर्ष के टेण्डर स्वीकृत होने तक के लिये अपनी दरें प्रेषित कर रहा हूँ। मैंने धरोहर की राशि रु.....एन.एस.सी./राष्ट्रीकृत बैंक से बनी एफ.डी.आर. (डी.डी. / बैंकर चैक / पे आर्डर मान्य नहीं ) .....है। जो प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, झाँसी के नाम बंधक है एवं टेण्डर क्रय का डी0डी0..... दिनांक-..... संलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा नियम व शर्तों को पढ लिया गया है। मुझे टेण्डर नोटिस व उसके नियम व शर्तें मंजूर है। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर निविदा की कार्यवाही इकरारनामा पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरी धरोहर राशि को जब्त करके सरकारी कोष में जमा करा दिया जाये। निविदा में जो दरें दी गयी है वह अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक व किसी अन्य सरकारी संस्थान में दी गयी दरों से अधिक नहीं हैं , यदि इससे अधिक पायी जाती है तो मूल्य की क्षतिपूर्ति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। इन नियम व शर्तों के विरुद्ध मैं किसी भी कार्यवाही करने के लिये अधिकारी नहीं रहूँगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य , मेडिकल कालेज, झाँसी का फैसला मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता:-

निविदादाता का नाम:-

पत्र व्यवहार का पता:-

दिनांक:-